

## राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

बदरपुर, नई दिल्ली - 110044, फोन नं. 011-26940722, 26952083, 26944198

वेबसाइट : [www.nptdelhi.net](http://www.nptdelhi.net) & [www.npti.gov.in](http://www.npti.gov.in)

**पावर प्लांट इंजीनियरिंग में पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम (2018-19) में आवेदन तिथि के विस्तार के संदर्भ में सूचना**  
इस पाठ्यक्रम में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम 2010 के अनुसार पाठ्यचर्या शामिल है

आपको क्यों शामिल होना चाहिए ? इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय विद्युत क्षेत्र में भर्ती के लिए आसानी से उपलब्ध एवं तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति के पूल को विकसित करना है। इस पाठ्यक्रम से विद्युत एवं इससे जुड़े ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक नए डिप्लोमा इंजीनियरों तथा विभिन्न यूटिलिटीयों द्वारा प्रायोजित इंजीनियरों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाया जाएगा।

पाठ्यक्रम के बारे में : पीडीसी (पीपीई) 52 सप्ताह की अवधि का मांज्यूलर पाठ्यक्रम है। इसकी औपचारिक कोचिंग बदरपुर, नई दिल्ली में स्थित एनपीटीआई के क्षेत्रीय संस्थान में होगी। पीडीसी के लिए ऑन-जॉब प्रशिक्षण नजदीकी विद्युत स्टेशनों तथा आधुनिकतम सिमुलेटर प्रशिक्षण एनपीटीआई फरीदाबाद या अन्य स्थानों पर होगा। इस पाठ्यक्रम में भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार पाठ्यचर्या शामिल है।

पात्रता :

पीडीसी (पावर प्लांट इंजीनियरिंग) के लिए - मैकेनिकल/ इलैक्ट्रीकल/ इलैक्ट्रोनिक्स/ कंट्रोल एंड इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग (रेगुलर बेसिस) में डिप्लोमा या समकक्षा। ग्रेजुएट इंजीनियर्स पात्र नहीं हैं।

प्रवेश हेतु चयन के मानदण्ड

डिप्लोमा की परीक्षा के परिणाम की मेरिट एवं प्रतिशत अनुसार कुल सीटें - 80, भारत सरकार के मानकों के अनुसार एस.सी./ एस.टी./ ओ.बी.सी./ दिव्यांगों के लिए आरक्षण। पावर यूटिलिटीयों के प्रायोजित प्रत्याशियों के लिए 25 % स्थान आरक्षित है। यदि पर्याप्त प्रायोजित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो सीट गैर-प्रायोजित उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएगी।

\*स्थानों की संख्या एनपीटीआई प्रबंधन के विवेकानुसार बदली जा सकती है। अत्यधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में एक और पीडीसी बैच शुरू किया जा सकता है।

प्लेसमेंट - अनेक प्रतिष्ठित कंपनियों एनपीटीआई में कैम्पस प्लेसमेंट के लिए आती हैं तथा प्लेसमेंट प्रभार लिया जाता है यद्यपि 100 % प्लेसमेंट की गारंटी नहीं है।

आवेदन कैसे करें - सादे कागज पर आवेदन के साथ एस.बी.आई कॉलेक्ट द्वारा रूपये 400/- के भुगतान की प्रति संलग्न कर (भुगतान के लिए एनपीटीआई की वेबसाइट [www.nptdelhi.net](http://www.nptdelhi.net) पर जाएं तथा होमपेज पर दी गई अधिसूचना को देखें) तथा लिफाफे के शीर्ष पर आवेदित पाठ्यक्रम का नाम लिखकर दिनांक 17/09/2018 को या इससे पहले प्रधान निदेशक, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, बदरपुर, दिल्ली- 110044 के पास निम्नांकित फॉर्मेट में एक पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ पहुंच जाना चाहिए:- 1. कार्यक्रम का नाम 2. आवेदक का नाम 3. पिता का नाम 4. माता का नाम 5. जन्मतिथि तथा दिनांक 27/09/2018 .18 को आयु 6. लिंग 7. वैवाहिक स्थिति 8. राष्ट्रीयता 9. क्या अनु. जाति/ अनु. जन जाति/ अ.पि.वर्ग/ दिव्यांग वर्ग के हैं। 10. डाक का पूरा पता

11. संपर्क नंबर 12. ई मेल पता 13. शैक्षिक योग्यता कक्षा 10वीं से आरंभ करते हुए, विषय, कॉलेज/ संस्थान, अंकों का प्रतिशत और पास होने का वर्ष 14. अनुभव, यदि कोई हो 15. ऑनलाइन भुगतान के बाद प्राप्त रसीद आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानी है। 16. प्रायोजित / अप्रायोजित (यदि प्रायोजित है तो प्रायोजन प्रमाण पत्र तथा पिछली 12 सैलरी स्लिप संलग्न करें, बैंक खाते की स्टेटमेंट की प्रति संलग्न करें जिसमें पिछली 12 सैलरी क्रेडिट की गई हों) 17. हस्ताक्षर (क्रम सं 5, 9, 13 एवं 14 के लिए प्रमाण की स्वयं सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)। अ. पि. वर्ग के प्रत्याशी 01.04.2018 को या उसके बाद जारी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जमा करें। आवेदन हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

पाठ्यक्रम शुल्क- पीडीसी पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान अप्रायोजित प्रत्याशी तीन किशतों में कर सकते हैं। यह भुगतान एस.बी.आई कॉलेक्ट/एन.ई.एफ.टी./ ऑनलाईन हस्तांतरण द्वारा किया जा सकता है।

पाठ्यक्रम	अप्रायोजित	प्रायोजित रू एक किशत में
पीडीसी	1,45,000*	2,20,000*

\* प्लेसमेंट शुल्क सहित सभी शुल्क पर जी.एस.टी अतिरिक्त 18% अलग से चार्ज होगा।

आवेदक की किसी भी श्रेणी के लिए शुल्क में कोई रियायत नहीं है। स्थानीय उद्योगों/यूटिलिटी तक परिवहन की लागत 6,000/- रूपये + GST होगी। शहर से बाहर परिवहन/ भोजन और आवास का प्रभार प्रतिभागियों द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। गैर छात्रावासियों के लिए 4,000 रूपये और छात्रावासियों के लिए 8,000 रूपये रिफंडेबल कॉशन मनी (बशर्ते प्रशिक्षण शुल्क का पूर्णतः भुगतान किया गया हो) प्रवेश के समय जमा कराई जाएगी।

आवास और भोजन : छात्रावास की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बहुत ही कम प्रभार पर उपलब्ध कराई जाएगी। महिला प्रत्याशियों को एनपीटीआई फरीदाबाद में अलग से छात्रावास दिया जाता है। छात्रावासियों को भुगतान आधार पर छात्रावास में भोजन करना अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण तिथियां

1. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 17.09.2018
2. परिणाम/ परामर्श सूची घोषणा : 20.09.2018
3. काउंसलिंग : 27.09.2018
4. पाठ्यक्रम प्रारंभ : 28.09.2018

टिप्पणी : विस्तृत अनुदेश/ अधिसूचना या पाठ्यक्रम के विषय में आवेदकों के लिए अन्य कोई भावी जानकारी केवल हमारी वेबसाइट पर डाली जाएगी।

ई-मेल आई.डी तथा पत्राचार के लिए संपर्क : [rajeshshukla243@gmail.com](mailto:rajeshshukla243@gmail.com), 9953090277